

2025**(Session : 2023-27)***Time : 1½ hours**Full Marks : 50*

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें ।

The figures in the margin indicate full marks.

उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं ।

Answer all questions.

सभी प्रश्नों के उत्तर दें ।

1. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करें : $1 \times 5 = 5$

(क) 'सुबोध हिन्दी व्याकरण और रचना' के रचनाकार का नाम चुनिए :

(i) डॉ० श्याम नन्दन शास्त्री

(ii) डॉ० वचनदेव कुमार

(iii) डॉ० वासुदेव नन्दन प्रसाद

(iv) प्रेमचन्द

(ख) 'आँखों का तारा' इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है ?

(i) धोखा देना

(ii) गहरी दोस्ती

(iii) बहुत प्यारा

(iv) नष्ट करना

(ग) 'वृहत् व्याकरण भाष्कर' के रचनाकार को चुनिए :

(i) नागार्जुन

(ii) डॉ० वचनदेव कुमार

(iii) प्रेमचन्द

(iv) अज्ञेय

(घ) 'वर्ण' के कितने भेद हैं ?

(i) सात

(ii) दो

(iii) पाँच

(iv) चार

(ङ) कारक के कितने भेद होते हैं ?

(i) सात

(ii) चार

(iii) आठ

(iv) पाँच

2. निम्नलिखित में से किसी एक पंक्ति का पल्लवन कीजिए : 10

(क) मन के हारे हार है, मन के जीते जीत

(ख) परहित सरिस धरम नहीं भाई ।

3. निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए : 20

(क) गणतंत्र दिवस

(ख) पर्यावरण संरक्षण

(ग) विज्ञान का महत्त्व

(घ) नैतिक शिक्षा की अनिवार्यता

4. निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करें : 5

परशासनिक, सूबोध, अनुग्रहीत, अशीर्वाद, बिमार ।

5. निम्नलिखित गद्यांश का उचित शीर्षक देकर संक्षेपण करें : 10

मनुष्य को जीवन में विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इनमें से कुछ चुनौतियाँ शारीरिक होती हैं जैसे कि बीमारी या चोट जबकि कुछ मानसिक होती हैं, जैसे कि तनाव या चिंता । इन चुनौतियों से निबटने के लिए मानसिक और

शारीरिक रूप से मजबूत होना आवश्यक है । शारीरिक मजबूती के लिए नियमित व्यायाम और संतुलित आहार महत्त्वपूर्ण है ठीक उसी प्रकार मानसिक मजबूती के लिए सकारात्मक सोच, आत्म-नियंत्रण और तनाव प्रबंधन की तकनीकों का अभ्यास करना जरूरी है । जीवन की हर चुनौती हमें कुछ सिखाती है और हमें अधिक शक्तिशाली बनाती है । इसलिए हमें चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना दृढ़ संकल्प और साहस के साथ करना चाहिए ।

